

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 243]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 जून 2015—ज्येष्ठ 25, शक 1938

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 जून 2016

अधि. क्र. 08 एफ-1-6-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका मण्डीदीप, जिला रायसेन के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	04	वार्ड क्रमांक 10 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड वार्ड क्रमांक 16 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड वार्ड क्रमांक 18 राजीव गांधी वार्ड वार्ड क्रमांक 19 जवाहरलाल नेहरू वार्ड
2	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	02	वार्ड क्रमांक 10 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड वार्ड क्रमांक 16 सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड
3	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	वार्ड क्रमांक 25 तात्या टोपे वार्ड
4	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	निरंक	निरंक
5	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित कुल वार्ड	07	वार्ड क्रमांक 04 इंदिरा गांधी वार्ड वार्ड क्रमांक 07 महात्मा गांधी वार्ड वार्ड क्रमांक 08 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड वार्ड क्रमांक 13 गुरूनानक वार्ड वार्ड क्रमांक 15 गुरूगोविंद पंत वार्ड वार्ड क्रमांक 17 महाराणा प्रताप वार्ड वार्ड क्रमांक 21 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	04	वार्ड क्रमांक 04 इंदिरा गांधी वार्ड वार्ड क्रमांक 08 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड वार्ड क्रमांक 13 गुरूनानक वार्ड वार्ड क्रमांक 15 गुरूगोविंद पंत वार्ड
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 2, 4 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	07	वार्ड क्रमांक 01 महावीर वार्ड वार्ड क्रमांक 02 बाल गंगाधर तिलक वार्ड वार्ड क्रमांक 12 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड वार्ड क्रमांक 20 पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड वार्ड क्रमांक 22 ए. पी. जे. अब्दुल कलाम वार्ड वार्ड क्रमांक 24 शहीद मंगल पाण्डे वार्ड वार्ड क्रमांक 26 शहीद रामप्रसाद बिसमिल वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद गुप्ता, अपर सचिव.